



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NAGPUR

(वर्षीक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट ; लि.म.वा.वि.)

Annual Performance Assessment Report (APAR)

(गैर लिपिकीय वर्ग 'ग' के स्टाफ अस्पताल परिचर । नफाई परिचर । पशुगृह परिचर । मार्ग परिचर स्टाफ आदि के लिए)

For Group 'C' Non Clerical staff and Hospital attendant/sanitary Attendant/Animal House Attendant/Morgue attendant/Security Staff/Lib. Attendant etc.

विभाग/अनुभाग/खण्ड : _____

Department/ Section/Unit :

दिनांकसेतक निष्पादन की अवधि
Period of Assessment from _____ to _____

भाग-१ वैयक्तिक ब्योरा
PART-I PERSONAL DATA

(मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से संबन्धित प्रशासनिक अनुभाग द्वारा भरा जाए, इसकी अनुपस्थिति में रिपोर्टिंग अधिकारी इसे संबन्धित रिपोर्टीधीन से प्राप्त करें)
(To be filled by the Administrative section concerned of the Ministry/Department/ Office, in its absence, Reporting officer to get it from officer reported upon)

1.1 अधिकारी का नाम एवं पदनाम :
Name of officer & present designation:

1.2 सेवा में कार्यग्रहण की तारीख
Date of Joining the Service:

1.3 जन्म तिथि :
Date of Birth:

1.4 वर्तमान ग्रेड में लगातार नियुक्ति की तारीख
Date of continuous appointment to present grade:

तारीख	ग्रेड
Date	Grade

1.5 वर्तमान पद और उस तैनाती की तारीख :
Present post and date of posting thereto:

1.6 ड्युटी से अनुपस्थित रहने की अवधि :
Period of discontinuity from duty:

छुट्टी के कारण
On account of Leave:

प्रशिक्षण का उद्देश्य /अन्य सरकारी कार्यों के कारण
On account of/Training other official Assignments

सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना कार्य से अनुपस्थित दिनों की कुल संख्या

Total Number of days absent from duty without
prior permission of competent authority

1.7 शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संबंधी अहर्ताएँ :

Academic and Professional Qualifications:

1.8 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/श.वि. के है?
Whether Belong to SC/ST/OBC/PH Community?

1.9 जिन अंतर्देशीय/विदेश प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठयक्रमों में भगा लिया और व्यवसाय संबंधी अहर्ताएँ प्राप्त की :

Inland/Foreign Training/Refresher Courses undertaken and
Professional qualification attained:

1.10 व्यावसायिक निकायों की फेलोशिप/सदस्यता/पास की गई विभागीय परीक्षा :
Fellowship/Membership of Professional Bodies/
Departmental Exam qualified

1.11 कवर्तमान मूल + वेतन ग्रेड वेतन :
Pay in the pay band + Grade Pay:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

1.12 रिपोर्टिंग पुनः निरीक्षण अधिकारी तथा स्वीकारकर्ता के विवरण :
Details of the Reporting, Reviewing Officer and Accepting Authorities:

रिपोर्टिंग चैनल Channel of Reporting	नाम और पदनाम Name and Designation	रिपोर्ट की अवधि Period covered in the year
रिपोर्टिंग प्राधिकारी Reporting Authority		
पुनः निरीक्षण प्राधिकारी Reviewing Authority		
स्वीकारकर्ता प्राधिकारी Accepting Authority		

भाग - 2- स्व. मूल्यांकन /Part-2 – SELF APPRAISAL

1 कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण/ Brief description of duties of post :

2 से..... तक के वर्ष/ अवधि के दौरान आपके द्वाराकिए गए कार्य का संक्षिप्त सार-वृत्त (दिया जाने वाला सार-वृत्त १०० शब्दों से अधिक) Brief resume of the work done by you during the year/period from.....to.....(The resume to be furnished should be limited to 100 words)

3 मूल्यांकन के अवधि के दौरान डाक/ फाइलों की निपटान की कुल संख्या।
During the assessment period, total number of disposal of case/files etc.

4 पद कार्यभर ग्रहण करने के दौरान लंबित मामलों/फाइलों की कुल संख्या।
During the assigning the post, total number of pending cases/files.

5 वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित फाइलों/मामलों की कुल संख्या :
Total number of cases/files pending during the financial year.

6 सिर्फ सुरक्षा स्टाफ के लिए लागू
Applicable for security staff only

6.1 क्या पदधारी आकलन वर्ष दौरान वर्दी नियम का पालन किया है हा / नहीं
Have the incumbent has followed the uniform rules Yes / No
during the duty hour in the assessing year

6.2 क्या पदधारी कके विपरीत कार्याविधि में कोई शिकायत प्राप्त हुई है यदि हा , तो कृपया उसके विषय में वर्णन करे हा / नहीं
Have any complaint received against the incumbent Yes / No
during the duty hour, if so, please specify the action taken for the same

भाग-3 रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी द्वारा मूल्यांकन
Part-3 Assessment by the Reporting Officer

(कृपया प्रविष्टिया भरने से पहले दिश निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ लें)
(Please read the guideline carefully before filling the entries)

1. रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा प्रत्येक गुण / विशेषता के लिए टांकिक ग्रेडिंग दी जानी चाहिए जो कि १ से १० तक पैमाने पर होनी चाहिए जिसमें १ का तात्पर्य न्यूनतम ग्रेड से और १० का तात्पर्य उच्चतम ग्रेड से है। Numerical grading to be awarded for each of the attributes by the reporting authority which should be on a scale of 1-10, where 1 refers to the lowest grade and 10 to the highest.

(क) कार्य निष्पादन का मूल्यांकन इस खंड की तरजीह ४० प्रतिशत होगी

Assessment of work output (weightage to this Section would be 40%)

क्र.सं./ S.N.	विवरण /Descriptions	रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी द्वारा दिया गया ग्रेड Grades by Reporting Authority	समीक्षा अधिकारी द्वारा दिया संशोधित ग्रेड (यदि सूत्रम्भ २ से सहमत नहीं है) Revised Grades by Reviewing Authority (if doesn't agree with col.2)	समीक्षा अधिकारी का आद्याक्षर Initial of Reviewing Authority
	1	2	3	4
i)	योजनाबद्ध कार्य आबंटित विषयों के अनुसार आबंटित कार्य पूरा करना / Accomplishment of planned work/work allotted as per subjects allotted			
ii)	कार्य की गुणवत्ता / Quality of work			
iii)	कार्य में प्रवीणता, नामतःनिर्धारित रजिस्ट्रों और चार्टों इत्यादी का रखरखव / Proficiency in work, namely maintenance of prescribed and charts etc.			
कार्य निष्पादन पर समय ग्रेडिंग(कुल १ से ३) / 3 Overall Grading on Work Output (Total 1 to 4)				

(ख) वैयक्तिक गुण का मूल्यांकन(इस खंड की तरजीह ३० प्रतिशत)

(B) Assessment of personal attributes (Weightage to this section would be 30%)

क्र.सं./ S. No.	विवरण /Descriptions	रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी द्वारा दिया गया ग्रेड Grades by Reporting authority	समीक्षा अधिकारी द्वारा दिया संशोधित ग्रेड (यदि सूत्रम्भ २ से सहमत नहीं है)Revised Grades by Reviewing Authority (if doesn't agree with col.2)	समीक्षा अधिकारी का आद्याक्षर Initial of Reviewing Authority
i)	कार्य के प्रति अभिवृत्ति गुणवत्ता / Attitude to work			
ii)	उत्तरदायित्व की भावना / Sense of responsibility			
iii)	अनुशासन बनाए रखना / Maintenance of discipline			

iv)	संवाद कौशल / Communication skills			
v)	विश्लेषणात्मक योग्यता/ Analytical ability			
vi)	टीम मे कार्य करने की योग्यता / Ability to work in team			
vii)	समय सीमा पालन करने की योग्यता / Ability to meet deadline			
viii)	अंतर्वैयक्तिक संबंध / Inter personal relation			
विशेषताओं की समय ग्रेडिंग (समग्र {I से viii}) Overall Grading on 'Personal Attributes' (Total {I to viii})				

(ग) कार्यात्मक क्षमता का मूल्यांकन (इस खंड की तरजीह ३० प्रतिशत होगी)

(C) Assessment of functional competency (weightage to this section would be 30%)

क्र.सं ./S. No./	विवरण/Descriptions	रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी द्वारा दिया गया ग्रेड Grades by Reporting authorit y	समीक्षा अधिकारी द्वारा दिया संशोधित ग्रेड (यदि सूत्रम्भ २ से सहमत नहीं है) Revised Grades by Reviewing Authority (if doesn't agree with col.2)	समीक्षा अधिकारी का आद्याक्षर Initial of Reviewing Authority
i)	समन्वय की योग्यता / Coordination ability			
ii)	पहल / Initiative			
	प्रतीणता कार्यात्मक क्षमता पर समय ग्रेडिंग (कुल i से ii) Overall Grading on 'Functional Competency (Total {I to ii})			

टिप्पणी : समय ग्रेडिंग, निर्धारित गई तरजीह के अनुपात में संकेतकों के प्रत्येक मध्य मान के योग पर आधारित होगी

Note: The overall grading will be based on addition of the mean value of each group of indication 'in proportion to weightage assigned.

सामान्य /GENERAL

भाग -4/Part-4

1. जनता के साथ संपर्क(जहां कहीं लागू हो)
कृपया जनता की अधिकारी तक पहुंच की योग्यता और उनकी जरूरतों के प्रति उत्तरदायित्व पर टिप्पणी दें
Relations with the public (wherever applicable), please comment on the officer's accessibility to the public and responsiveness to their needs.

2. प्रशिक्षण (कृपया अधिकारी की कारगरता और कार्य क्षमता में सुधार लाने हेतु भविष्य की दृष्टि से प्रशिक्षण की सिफारिश दें)

Training (Please give recommendations for training with a view to future improving the effectiveness and capabilities of the officer)

3. स्वास्थ्य की स्थिति/ State of Health.

4. सत्यनिष्ठा (कृपया अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी करें)

Integrity (Please comment on the integrity of the Officer)

5. क्षमताओं और कमतर क्षमताओं, असाधारण उपलब्धियों, महत्वपूर्ण विफलताओं तथा कमजोर वर्गों के प्रति अभिवृत्ति के क्षेत्र सहित अधिकारी के समय गुणों पर रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी द्वारा शब्द चित्र (लगभग १०० शब्दों में)
Pen Picture by Reporting Officer (In about 100 words) on the overall qualities of the officer including area of strengths and lesser strength, extraordinary achievements, significant failures and attitude towards weaker sections.

6. भाग - ३ में खंड क, ख, और ग में दी गई तरजीह के आधार पर समग्र आंकिक ग्रेडिंग
Overall numerical grading on the basis of weightage given in Section A, B, and C in Part- III of the Report.

रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of
the Reporting Officer

नाम बड़े अक्षरों में

Name in Block letters.....

पदनाम /Designation.....

रिपोर्ट की अवधि के दौरान

During the period of Report:

स्थान /Place:

दिनांक /Date:

भाग -5 पुनर्विलोकन अधिकारी द्वारा अभियुक्तियां
Part-5 Remarks of the Reviewing Officer

1. पुनर्विलोकन अधिकारी के सेवाकाल

Length of service under the Reviewing Officer.

2. क्या आप कार्य निष्पादन और भाग - ३ तथा भाग- ४ में विभिन्न गुणों विशेषताओं के संबंध में रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी के द्वारा किए गए मूल्यांकन से सहमत हैं? (संदर्भ भाग -३ और भाग-४ (५) यदि आप गुणों विशेषताओं के किसी भी आंशिक मूल्यांकनों से सहमत नहीं है तो उस खं डमें आपके लिए दिए गए स्तंभ में अपना मूल्यांकन दर्ज करें और अपनी प्रविष्टियों पर अपना आद्याक्षर करें।)

Do you agree with the assessment made by the reporting officer with respect to the work output and the various assessments of attributes in Part-3 and Part-4? (Ref. Part 3 & Part 4 (5) (In case you do not agree with any of the numerical assessment of attributes please record your assessment in the column provided for you in that section and initial your entries).

हां / Yes

नहीं / No

3. असहमति की स्थिति में कारण बताएं। कृपया ऐसा कुछ है जिसमें आप संशोधन करना अथवा जोड़ना चाहते हैं ?
In case of disagreement, please specify the reasons. In there anything you wish to modify or add?

4. अ.जा./अ.ज.जा. अधिकारी के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी की अभिवृत्ति।
The attitude of the Reporting Officer in assessing the performance of SC/ST Officer.

5. पुनर्विलोकन अधिकारी द्वारा शब्द चित्र। लगभग(१०० शब्दों में) कृपया क्षमताओं और क्रमतर क्षमताओं के क्षेत्र और कमजोर वर्गों के प्रति अभियुक्त सहित अधिकारी के समग्र गुणों पर टिप्पणी करें।

Pen Picture by Reviewing Officer. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of the officer including area of strengths and strength his attitude forwards weaker section.

6. रिपोर्ट के भाग - ३ में खंड क,ख और ग में दी गई तरजीह के आधार पर समग्र आंकिक ग्रेडिंग।

Overall numerical grading on the basis of weightage given in Section- A, B and Section-C in Part -3 of the Report.

उत्कृष्ट: 9

Outstanding (9)

बहुत अच्छा: 7

Very Good (7)

अच्छा: 5

Good(5)

संतोषजनक: 3

Satisfactory (3)

असंतोषजनक: 0

Unsatisfactory (0)

पुनर्विलोकन अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of the Reviewing Officer

स्थान /Place :

साफ अक्षरों में नाम:

Name in Block Letters :.....

पदनाम:

Designation :.....

दिनांक/ Date :

रिपोर्ट की अवधि :.....

During the period of Report :

Scrutinized by CAO/APAR Cell, AIIMS

नोट: वा.नि.म.रि. से संबंधित निर्देश संलग्न हैं जिसमें इसके तैयार करने/परिपूर्ण करनेके लिए नियत समय-सीमा (अनुलग्नक-III) भी सम्मिलित है।

Note: Instructions on APAR including a Time-schedule (Annexure-III) for preparation/completion of actions pertaining to the same are

गोपनीय/CONFIDENTIAL

NOTE: कृपया कोई भी कालम निक्त ना छोड़े/

PLEASE DO NOT LEAVE ANY COLUMN BLANK

(पावती को अलग करके सम्बन्धित अधिकारी को सौंप दें)/(To be detached and Handed over to the Ratee Officer)

- (i) श्री/श्रीमती/सुश्री.....ग्रेड/पदनाम.....की.....से.....तक की अवधि की वा.का.मू.रि. के स्व-मूल्यांकन कालम को भरकर दिनांक.....को रिपोर्टिंग अधिकारी को प्रस्तुत की गई।

APAR in r/o Shri/Smt./Ms.....grade/designation.....for the period from.....to.....submitted after completion of the self-Appraisal to the Reporting officer on.....

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर.....

Signature of Reporting Officer:.....

नाम एवं ग्रेड/पदनाम:.....

Name & Rank/Designation:.....

(पावती को अलग करके रिपोर्टिंग अधिकारी को सौंप दें)/(To be detached and Handed over to the Ratee Officer)

- (ii) श्री/श्रीमती/सुश्री.....ग्रेड/पदनाम.....की.....से.....तक की अवधि की वा.का.मू.रि. के रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा दिनांक.....को पुनरीक्षण अधिकारी को प्रस्तुत की गई।

APAR in r/o Shri/Smt./Ms.....grade/designation.....for the period from.....to.....submitted after initiation to the Reviewing Officer on.....

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर.....

Signature of Reviewing Officer:.....

नाम एवं ग्रेड/पदनाम:.....

Name & Rank/Designation:.....

गोपनीय/CONFIDENTIAL

अधिकारी का नाम (जिसकी रिपोर्ट लिखी जा रही है)/ Name of the Ratee Officer.....

प्राप्ति/ RECEIPT

वा.नि.म.रि. की प्रति दिनांक.....को मझे प्राप्त को गई है। संबंधत विषय पर निर्देशों के अनुसार, वा.नि.म.रि. की विषय-वस्तु के विरुद्ध प्रतिवेदन, यदि है तो, मुझे १५ दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

A copy of the APAR received by me on.....As per instructions on the subject, if I wish to represent against the contents of the APAR, I have to do so within 15 days.

अधिकारी, जिसकी रिपोर्ट लिखी जा रही है,के हस्ताक्षर.....

Signature of the Ratee Officer:.....

नाम:.....

Name:.....

रैंक /पदनाम :.....

Rank/Designation:.....

ANNEXURE-I**TIME SCHEDULE FOR PREPARATION/COMPLETION OF
APAR (REPORTING YEAR-FINANCIAL
YEAR)**

S .No.	Activity	Date by which to be completed
1.	Distribution of blank APAR forms to all concerned (i.e. to officer to be reported upon where self-appraisal has to be given and to reporting officers where self-appraisal is not to be given)	
2.	Submission of self-appraisal to reporting officer by officer to be reported upon (where applicable)	
3.	Submission of report by reporting officer to reviewing officer	
4.	Report to be completed by Reviewing Officer and to be sent to the Chief Administrative Officer or ACR Cell or accepting authority, wherever provided.	
5.	Appraisal by accepting authority, wherever provided	
6.	(a) Disclosure to the officer reported upon where there is no accepting authority (b) Disclosure to the Officer reported upon where there is accepting authority	
7.	Receipt of representation, if any, on APAR	
8.	Forwarding of representation to the competent authority (a) Where there is no accepting authority for APAR (b) Where there is accepting authority for APAR	
9.	Disposal of representation by the competent authority	
10.	Communication of the decision of the competent authority on the representation by the APAR Cell.	
11.	End of entire APAR process, after which the APAR will be finally taken on record	

ANNEXURE-II

वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को गणितीय ग्रेड में भरने जाने के संबंध में दिशानिर्देश Guidelines regarding filling up of APAR with numerical grading

- (i) वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के स्तंभों को पर्याप्त समय देते हुए सावधानीपूर्वक एवं ध्यान से भरा जाए।
The Columns in the APAR should be filled with due care and attention and after devoting adequate time.
- (ii) ऐसी आशा की जाती है कार्य उपलब्धि या योग्यताओं के सम्मुख दिए जाने वाले संपूर्ण ग्रेड कि दिए जाने वाले निम्नतम ग्रेड १ या २ को अधिकारी के असफलता का विनिर्दिष्ट करते हुए पर्याप्त रूप से न्याय संगत ठहराया जाए और ठीक इसी तरह ९-१० के सर्वोत्तम ग्रेड को अधिकारी के कार्य निष्पादन को विनिर्दिष्ट करते हुए पर्याप्त रूप से न्यायोचित ठहराया जाए। ग्रेड १-२ या ९-१० को दिए जाने की संभावना कम ही होती है यदि ये ग्रेड दिए भी जाते हैं तो इस स्थिति में कारण बताने की आवश्यकता है। रिपोर्ट अधिकारी और समीक्षा अधिकारी अपने अधीन काम करने वाले मौजूदा अधिकारी को वास्तविक क्षमताओं की बहनता को ध्यान में रखते हुए ही अंकीय ग्रेड दें।
It is expected that any grading of 1 or 2 (against work output or attributes or overall grade) would be adequately justified in the pen-picture by way of specific failures and similarly, any grade of 9 or 10 would be justified with respect to specific accomplishments. Grades of 1-2 or 9-10 are expected to be rare occurrences and hence the need to justify them. In awarding a numerical grade the reporting and reviewing authorities should rate the officer against a larger population of his/her peers that may currently working under them
- (iii) वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में ८ और १० के बीच के ग्रेड को “उत्कृष्ट” माना जाएगा और प्रोन्नति/सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से अनुपातिक संगणना के लिए ग्रेड ९ दिया जाएगा।
APARs graded between 8 and 10 will be rated as ‘outstanding’ and will be given a score of 9 for the purpose of calculating average scores for empanelment/promotion.
- (iv) वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में ६ और ८ के बीच के ग्रेड को “बहुत अच्छा” माना जाएगा और इसके लिए प्राप्तांक ७ दिया जाएगा।
APARs graded between 6 and short of 8 will be rated as ‘very good’ and will be given a score of 7.
- (v) वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में ४ और ६ के बीच के ग्रेड को “अच्छा” माना जाएगा और इसके लिए प्राप्तांक ५ दिया जाएगा।
APARs graded between 4 and 6 short of 6 will be rated as ‘good’ and given a score of 5.
- (vi) वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में ४ से नीचे दिए जाने वाले ग्रेड को जीरो माना जाएगा।
APARs graded below 4 will be given a score of zero.